



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31—फरवरी 6, 2004 (माघ 11, 1925)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31—FEBRUARY 6, 2004 (MAGHA 11, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

. भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक
सहयोगी एवं अनुषंगी समूह
मुंबई, दिनांक 10 जनवरी 2004

एसबीडीक्र. 17/2003-04--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने अधिसूचना क्र. एसबीडी/13/2003 दिनांक 8.10.2003 के द्वारा श्री सी. भट्टाचार्य, उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी), भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई को दिनांक 8.10.2003 से निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक के रूप में नामित किया था :--

- (1) स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
- (2) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- (3) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
- (4) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- (5) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- (6) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
- (7) स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर

यद्यपि श्री सी. भट्टाचार्य दिनांक 17.12.2003 से प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक के पद पर नियुक्त किए गए हैं तथापि वे आगामी सूचना तक उपर्युक्त बैंकों के बोर्ड पर निदेशक बने रहेंगे।

ए. के. पुरवार
अध्यक्ष

कार्पोरेशन बैंक

कार्पोरेट कार्यालय

मंगलूर-575 001, दिनांक 8 जनवरी 2004

संदर्भ सं.आई एस डी:629:2003-04

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात् तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ कार्पोरेशन बैंक का निदेशक मंडल कार्पोरेशन बैंक सामान्य विनियम, 1998 में पुनः संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है -

1. (1) ये विनियम कार्पोरेशन बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 कहलाएंगे ।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।
2. “कार्पोरेशन बैंक सामान्य विनियम, 1998” का “कार्पोरेशन बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 1998” के रूप में पुनर्नामकरण किया जाएगा ।
3. कार्पोरेशन बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 2 में पुनर्नामित विनियम -
(i) खण्ड (ड) निम्नलिखित से स्थानापित किया जाएगा, अर्थात्
“ (ड) ‘समिति’ का अर्थ विनियम 2ए के अधीन गठित समिति” है;
(ii) खण्ड (ज) में अंत में निम्नलिखित शब्द और अंक सम्मिलित किये जाएंगे, अर्थात्
“और डिपॉज़िटरी अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 11 के अधीन डिपॉज़िटरी द्वारा हिताधिकारी मालिकों का रजिस्टर बनाए रखा जाएगा ।”
4. विनियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम शामिल किया जाएगा अर्थात् -
“2ए(i) विनियम 67 के खण्ड (ii) में की गई व्यवस्था को छोड़कर बोर्ड इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, जैसे वह उचित समझता वैसे, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तब समिति गठित कर सकता है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या और उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा अन्य दो निदेशक होते हैं;
(ii) इस विनियम के अधीन गठित समिति बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किये जानेवाले प्रक्रियागत नियमों का पालन करेगी ।”

5. विनियम 5 में खण्ड (v) हटाया जाएगा ।
6. विनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा अर्थात् -
 - “5ए(i) रजिस्टर स्वतः अनुक्रमणिका नहीं है तो, बैंक एक अनुक्रमणिका बनाकर रखेगा जो शेयरधारकों के नामों के कार्ड इन्डेक्स के रूप में होगा और शेयरधारकों के रजिस्टर में कोई परिवर्तन करने के दिनांक के पश्चात् चौदह दिनों के भीतर अनुक्रमणिका में भी ज़रूरी परिवर्तन करेगा ।
 - (ii) अनुक्रमणिका शेयरधारकों के रजिस्टर के साथ रखी जाएगी ।”
7. विनियम 7 में, खण्ड (ii) में “फ़र्मों के मामले में” शब्दों के लिए “साझेदारी फ़र्मों के मामले में” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
8. विनियम 8 में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड शामिल किया जाएगा -
 - “(iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों को सुरक्षित रखने के लिए नियत संरक्षणों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप में रजिस्टर बनाए रखा जाएगा ।”
9. विनियम 11 में, खण्ड (ii) में “प्रति 100 शब्दों के लिए रु.5/- के दर पर” शब्दों के लिए “प्रति 1000 शब्दों के लिए रु.5/- के दर पर अथवा बोर्ड जिस प्रकार निर्णय करे उस दर पर” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
10. विनियम 12 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा -
 - “12. रजिस्टर को बंद करना - बैंक लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन और स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार सुनिश्चित करने के पश्चात् भारत में प्रसारित होनेवाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये न्यूनतम सात दिनों की पूर्व सूचना देने के पश्चात् बैंक शेयरधारकों का रजिस्टर किसी भी अवधि या अवधियों के लिए बंद कर सकता है जो प्रतिवर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी एक समय पर तीस दिनों से अधिक नहीं होगी, जो भी उसकी राय में ज़रूरी हो ।”
11. विनियम 13 में,
 - (i) खण्ड (ii) में “मंडल द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी” शब्दों के लिए “कोई अन्य अधिकारी जो वेतनमान II की श्रेणी से कम का न हो या कंपनी सचिव” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
 - (ii) खण्ड (v) हटाया जायगा ।
12. विनियम 15 में, “शेयर - प्रमाणपत्रों का नवीकरण” शीर्ष को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“ नया या अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना ।”

13. विनियम 17 में खण्ड (iii) और (iv) निम्नलिखित खण्डों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे -

“(iii) अंतरण दर्ज करने के लिए अनुरोध के साथ बैंक शेयर - प्रमाणपत्र के साथ अंतरण - लिखत प्राप्त होने पर, मंडल या मंडल द्वारा नामोद्दिष्ट समिति, यह सत्यापन के लिए कि तकनीकी अपेक्षाओं का पूर्णतः पालन कर लिया गया है, अंतरण के उस लिखत को शेयर प्रमाणपत्र के साथ रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण एजेंट को अग्रेषित करेगा। रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण एजेंट अंतरण - लिखत को विधिवत् स्टांपित करके और सही ढंग से निष्पादित करके और वह जिससे संबंधित है उस शेयर प्रमाणपत्र के साथ बैंक को प्रस्तुत नहीं किया हुआ होने पर, अंतरण करने के लिए अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार को दिखाने के लिए ऐसे अन्य साक्ष्य जो बोर्ड चाहता है वह न होने पर, अंतरण - लिखत, शेयर प्रमाणपत्र के साथ, यदि कुछ हो तो, पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए अंतरिती को लौटाएगा।

स्पष्टीकरण :- “तकनीकी अपेक्षाओं” का अर्थ है -

- (क) अंतरण विलेख विधिवत् स्टांपित किया हुआ हो;
- (ख) अंतरण विलेख में उल्लिखित प्रमाणपत्र संख्या या प्रभेदक संख्या का शेयर प्रमाणपत्र के साथ मिलान हो;
- (ग) अंतरणकर्ता के हस्ताक्षर का मिलान हो;
- (घ) अंतरण-विलेख का साक्षात्कन हो।”
- (iv) मंडल या मंडल द्वारा नामोद्दिष्ट समिति, इसके आगे विनियम 19 के अधीन अंतरण दर्ज करने से इनकार नहीं करती है तो, अंतरण को दर्ज करेगी।
- (v) विनियम 19 के अधीन शेयरों का अंतरण इनकार न हुआ होने पर, विधिवत् अंतरित शेयर-प्रमाणपत्र अंतरण-लिखत लॉज करने के दिनांक से साठ दिनों के अंदर अंतरिती को सुपुर्द किया जायगा।

14. विनियम 19 में :-

- (i) खण्ड (i) में “मंडल” शब्द के लिए “मंडल या समिति” प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ii) खण्ड (i) के परंतुक हटा दिये जाएंगे;
- (iii) खण्ड (ii) में -
 - (क) आरंभिक अंश में “मंडल” शब्द के लिए “मंडल या समिति” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपखण्ड (आ) के लिए निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

" यदि यह अभिमत बना लिया गया है कि उप-विनियम में उल्लिखित किसी आधार पर ऐसा पंजीकरण अस्वीकृत किया जाना चाहिए (i) अंतरण फार्म की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर या संबंधित स्टॉफ एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार में बतायी गई अवधि के भीतर ऐसी अस्वीकृति का कारण बताते हुए लिखित सूचना द्वारा इसे अंतरणकर्ता और अंतरिती को सूचित करें।"

15. विनियम 21 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल किया जाएगा :-

"स्पष्टीकरण- इस विनियम के प्रयोजन के लिए पंजीकरण के लिए शेयरधारक की अर्हता निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो सकती है -

(क) यदि वह अवयस्क का अभिभावक है तो, अवयस्क के वयस्क होने पर;

(ख) यदि वह कर्ता के रूप में शेयर रखता है तो, उसका कर्ता का पद समाप्त होने पर"।

16. विनियम 32 में "इस प्रयोजन हेतु मंडल के एक प्रस्ताव द्वारा" शब्दों के लिए "इस प्रयोजन हेतु विनियम 31 के अधीन समपहरण की सूचना की समाप्ति के पश्चात् आयोजित की जानेवाली मंडल की अगली बैठक में उसके प्रस्ताव द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

17. विनियम 44 में "बैंक का अन्य किसी अधिकारी" शब्दों के लिए "कंपनी सचिव या कम से कम वेतनमान II के बैंक के अन्य किसी अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

18. विनियम 46 में, खण्ड (ii) के परंतुक में -

(i) "पावती सहित या उसके बिना पंजीकृत डाक से" शब्दों के लिए "पावती सहित या उसके बिना पंजीकृत डाक से अथवा कुरियर सेवा द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक विधि द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;

(ii) "अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसी भी स्थिति हो" शब्द "सामान्य डाक से" शब्दों के पश्चात् शामिल किये जाएँगे"।

19. अध्याय III में -

(i) विनियम 47 में "एक या अधिक डिपॉजिटरियों" शब्दों के लिए "डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 2(ड) में परिभाषित किये अनुसार एक या अधिक डिपॉजिटरी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;

(ii) 48 से 55 विनियम हटा दिये जाएँगे।

20. विनियम 56 में, खण्ड (i) में "किसी प्राधिकृत पदाधिकारी" शब्दों के लिए "ऐसा अधिकारी जो वेतनमान VII की श्रेणी से कम न हो या कंपनी सचिव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

21. विनियम 61 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएँगे :

"61क मतगणना में मतपत्र - निरीक्षक

- (i) जहाँ मतदान होना है वहाँ बैठक का अध्यक्ष मतदान में दिये गये मतों की संवीक्षा करने और उसके पश्चात् उसे रिपोर्ट देने के लिए दो मतपत्र-निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा।
- (ii) बैठक के अध्यक्ष को मतदान का परिणाम घोषित होने के पहले किसी भी समय मतपत्र-निरीक्षकों को पद से हटाने एवं इस तरह हटाने या अन्य किसी वजह से मतपत्र-निरीक्षकों के पद में हुई रिक्ति को भरने का अधिकार होगा।
- (iii) इस विनियम के अधीन नियुक्त किये दो मतपत्र-निरीक्षकों में से एक हमेशा; बैठक में उपस्थित शेयरधारक होगा (जो बैंक का अधिकारी या कर्मचारी नहीं होगा) बशर्ते कि ऐसा शेयरधारक मौजूद हो और नियुक्त होने के लिए तैयार हो।

61ख मतदान आयोजित करने का तरीका और उसके परिणाम

- (i) बैठक के अध्यक्ष को मतदान का तरीका विनियमित करने का अधिकार होगा।
- (ii) जिस प्रस्ताव पर मतदान आयोजित किया गया उस संकल्प पर मतदान का परिणाम ही बैठक का निर्णय माना जाएगा।"

22. विनियम 62 में, खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा;

"(iv) शेयरधारक द्वारा कार्यवृत्त बही के निरीक्षण के लिए या किसी निर्दिष्ट बैठक के कार्यवृत्त की प्रति के लिए लिखित अनुरोध किये जाने पर, बैंक, शेयरधारक को यथास्थिति निरीक्षण करने देगा या कार्यवृत्त की प्रति देगा।"

23. विनियम 65 में खण्ड (i) में, उपखण्ड (अ) में "100 (एक सौ) शेयर धारक" शब्दों के स्थान पर "शेयरधारक जिसके पास 100 शेयर से कम न हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

का. अ. २२५० प.

(के अच्युत पै)
महाप्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2004

सं. एन-15/13/14/3/2002-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडू राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

“मदुरै जिला में मदुरै दक्षिण तालुक के राजस्व ग्राम - अछम्पतु, वडपलन्जी और करडिपट्टी के अधीन आने वाले क्षेत्र”।

आी. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या एन-12/13/4/2003-यो. एवं वि.: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है जिन्हें उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित, आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग-3, खण्ड-4 दिनांक 26 जुलाई, 2003 में पहले प्रकाशित किया गया था, अर्थात् :-

1. (1.) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) (संशोधन) विनियम, 2003 कहलाएंगे।
- (2.) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में--

1. विनियम 11: जो व्यक्ति नियत दिन को नियोजन में हो उनके द्वारा घोषणा :

इस विनियम में 'के प्रायोजन के लिए अपेक्षित सही विशिष्टियां' शब्दों के बाद और 'देने की अपेक्षा करेगा' शब्दों से पूर्व निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएं :-

‘उसके व उसके कुटुम्ब के फोटो सहित’

2. विनियम-12: नियत दिन के पश्चात नियुक्त व्यक्तियों द्वारा घोषणा:

उप-विनियम (1) में “घोषणा प्ररूप के लिए जिनके अन्तर्गत अस्थायी पहचान-पत्र भी हैं अपेक्षित

सही विशिष्टियां" शब्दों के बाद और 'देने के अपेक्षा करेगा' शब्दों से पूर्व निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएं :

'उसके व उसके कुटुम्ब के फोटो सहित'

3. विनियम 15क: कुटुम्ब का रजिस्ट्रीकरण:

इस विनियम में, 'अपने कुटुम्ब की बाबत' शब्दों के बाद और 'सही विशिष्टियां नियोजक को प्रस्तुत-1क में देगा' शब्दों से पूर्व निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं:

'उनके फोटो सहित'

4. विनियम 17: पहचान-पत्र :

इस विनियम में 'प्ररूप-4 में' शब्दों के बाद और 'पहचान पत्र तैयार कराने की व्यवस्था' शब्दों से पूर्व निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएं:

'फोटो सहित'

तथा

"और ऐसे पत्र में ऐसे कुटुम्ब की विशिष्टियां" शब्दों के बाद और "देगा जो विनियम 95क के अधीन चिकित्सा प्रसुविधा के हकदार हैं" शब्दों से पूर्व निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएं :

'और फोटो'

5. विनियम 95क के अधीन प्ररूप-4क: बीमाकृत व्यक्तियों के कुटुम्बों के लिए चिकित्सा प्रसुविधा :

इस विनियम में, मौजूदा प्ररूप-4क को निम्नलिखित नए प्ररूप-4क से प्रतिस्थापित किया जाए।

कुटुम्ब पहचान पत्रप्ररूप 4क
(विनियम 95क)

बीमा संख्या

--	--

सम्बद्ध स्थानीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय

बीमाकृत व्यक्ति का नाम:

लिंग: पुरुष/महिला:

कुटुम्ब का पता:

बीमाकृत व्यक्ति का औषधालय:

कुटुम्ब का औषधालय/क्षेत्र:

बीमाकृत व्यक्ति के घोषणा प्ररूप के अनुसार उसके कुटुम्ब के सदस्यों के बारे में :


क्र. सं.	नाम	जन्म की तारीख	बीमाकृत व्यक्ति के साथ रिश्ता	पहचान चिह्न

बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
या अंगूठा निशान(जारीकर्ता कार्यालय की
रबड़ की मोहर)जारीकर्ता प्राधिकारी के
हस्ताक्षर/पदनाम

अनुदेश

1. इस पहचान-पत्र के खो जाने की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति/कुटुम्ब तत्काल अपने सम्बद्ध स्थानीय कार्यालय/औषधालय को रिपोर्ट करे ।
2. खोया हुआ पहचान-पत्र यदि किसी को मिलता है तो वह कृपया या तो इसे ऊपर दिए गए कुटुम्ब के पते पर अथवा क.रा.बी.स्थानीय कार्यालय/औषधालय को भेज दे ।

कुटुम्ब का विधिवत् अनुप्रमाणित फोटोग्राफ (पीठ पृष्ठ पर)


(अशोक ज. पटार)
बीमा आयुक्त

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 8 जनवरी 2004


(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3-एन.सी.ए. (4)/2/2002-2003 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया गया है।

क्र० सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	000632	श्री गोयल विश्वा नाथ दिल्ली प्रैस बिल्डिंग, ई-3, झण्डेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-110055	18/05/2002
2.	001019	श्री सत्यापाल मेहरा बी-26, वेस्ट एण्ड कालोनी, नई दिल्ली-110021	06/04/2001
3.	002983	श्री अग्रवाल चन्द्रा शेखर ए-701, सीए अपार्टमेंट्स, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063	18/05/2002
4.	004110	श्री सरदाना जगदीश चन्द्रा एस-216, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली-110048	19/02/2003
5.	004182	श्री सिंह हरीन्द्र के/ऑफ सिंह एण्ड क., सी-97, पंचशील एन्कलेव, नई दिल्ली-110017	25/05/2002
6.	005444	श्री विज सिता राम एस आर विज एण्ड क. XV/3271 डी बी गुप्ता रोड, नई दिल्ली-110005	07/02/2003
7.	005135	श्री रोहतगी मगन बेहरी अलिस बैंक बेहरी रोहतगी पी 3834/XI जी-I पटौदी हाऊस रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002	16/05/2001
8.	006177	श्री गोयल महेन्द्रा कुमार मेहरा गोयल एण्ड क. 505, चिरंजीव टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	12/11/2002
9.	007247	श्री बेरी जयपाल 'बेरी भवन', 92, कैनेडी एवेन्यू, (पंजाब), अमृतसर-143001	02/10/2002

10.	007429	श्री गोयल जय भगवान दास 83, एसआरएम कोओ-ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी लि. प्लॉट नं. 106, आई पी एक्स. पटपड़ गंज, दिल्ली-110092	05/11/2002
11.	007900	श्री थापर सुभाष चन्द्र हाऊस नं. 249, सैक्टर-19ए, चंडीगढ़-160019	17/04/1997
12.	009473	श्री मनचन्दा नन्द किशोर रेलवे रोड, शर्मा पैलेस, पखवाड़ा-144401	28/01/2003
13.	009528	श्री गुरेजा विद्या सागर के बी चन्दना एण्ड क., ई-27, एन डी एस ई पार्ट II, नई दिल्ली-110049	21/05/2002
14.	011629	श्री चावला यश पोल मैसर्स वाई.पी. चावला एण्ड क., 151, डी. डी. ए. ऑफिस काम्पलेक्स, झण्डेवाला साइकिल मार्केट, फेस-I, नई दिल्ली-110055	13/08/2002
15.	013849	श्री धरेजा कृष्णा कुमार ई-73, एण्ड 74, लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, अमर कालोनी, नई दिल्ली-110024	23/05/2002
16.	014058	श्री पेरीवाल श्याम सुन्दर एस एस पेरीवाल एण्ड क., आपोजिट दू दयानन्द मेडिकल कालेज लुधियाना-141001	24/09/2002
17.	015620	श्री जैन पवन कुमार 5 सीसी-II एडिशनल मंडी, सिरसा-125055	04/12/2002
18.	016888	श्री अग्रवाल पुरुषोत्तम कुमार 245, दूसरी मंजिल, 187, कटरा माशरू, दरिबा कलान, दिल्ली-110006	07/03/2002
19.	080789	श्री माथुर दिनेश डी-298 नरीमन विहार, दिल्ली-110092	19/01/2002
20.	081049	श्री भारद्वाज प्रमोद कुमार के/ऑफ ए.के. महेश्वरी एण्ड क., 4808, भरत राम रोड, 24, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002	12/06/2002
21.	081061	श्री शर्मा अदिशवर कुमार अदिशवर कुमार एण्ड क. 5265, श्रद्धा नन्द मार्ग, अजमेरी गेट, दिल्ली-110006	07/09/2002

22.	081118	श्री विनोद कुमार विनोद टुटेजा एण्ड क. XVI/2393, हरदध्यान सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	27/10/2001	25.	082692	श्री जैन विनोद कुमार ए वी किशोर एण्ड क., 400 हंज काजी चौक कार्नर, सिता राम बाजार, दिल्ली-110006	05/10/2002
23.	081632	श्री गुप्ता राम ओतार आर ए गुप्ता एण्ड क., 51 (दूसरी मंजिल), रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055	23/12/2002	26.	083448	श्री नरेन्द्र सिंह 2 मालवीय एन्क्लेव, एडजोनिंग सिटी केबल ओफिस, एम एम मालवीय रोड, अमृतसर-0	18/12/2002
24.	081840	श्री गोयल सुभाष सुभाष गोयल एण्ड एसोसियट्स, मोतिया खान, अमलोह रोड, मंडी गोबिन्दगढ़-147301	21/11/2002	27.	086585	श्री गोयल सुभाष चन्द 186, पाकेट सी-9, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085	08/07/2000
				28.	092543	श्री मल्होत्रा पराग एच न. 75, गोबिन्द नगर, अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट-133001	31/07/2002


अशोक हल्दिया
(सचिव)

कानपुर-208 001, दिनांक 1 जनवरी 2004


(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नं० 3 सी.सी.ए. (8)(1)/2003-2004 चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 10(1) खण्ड-3 के अनुसरण के एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न लिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रेक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गयी तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण पत्र रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1.	005631	मि० अग्रवाल श्याम सुन्दर, एफसीए बिरला सीमेन्ट वर्क्स माधव नगर पी ओ सीमेन्ट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़-312021	01/10/2002	7.	074935	मि० भालपानी संजय, एफसीए इ-223 गणेश पार्क अम्बा बरी जयपुर-302023	20/11/2002
2.	073065	मि० मेहरोत्रा अविनाश, एफसीए रूम नं० 6, 10वां तल सोमदत्त प्लाजा 10, दि माल कानपुर -208001	09/01/2003	8.	075725	मि० अजमेरा नवीन, एफसीए निकट एनसीसी आफिस सिन्धु नगर भीलवाड़ा-311001	01/09/2002
3.	073702	मि० खण्डेलवाल प्रेम शंकर, एफसीए 63 सुल्तानपुर रोड अर्जुनगंज लखनऊ-226002	30/08/2002	9.	076201	मि० कसेरा विवेक, एफसीए फ्लैट नं० 103 सरस्वती अपार्टमेन्ट चांदगंज गार्डन, अलीगंज लखनऊ-226024	21/01/2003
4.	074040	मि० जबख राजेन्द्र कुमार, एसीए 2 बंजारा कालोनी निकट आरपीएस कालोनी वल्लभ नगर कोटा-324007	17/03/2003	10.	076445	मि० जैन संजय कुमार, एफसीए 102 ओटकेल हाउस 162 अपर गोविन्द नगर मलाद (इ) मुम्बई-400097	26/12/2002
5.	074208	मि० अग्रवाल विनय प्रकाश, एसीए 15-बी कस्तूरबा नगर सिगरा, वाराणसी-221010	24/09/2002	11.	076489	मि० भटनागर शरद, एफसीए 255/36 मालीवाड़ा बसन्त रोड गाजियाबाद-201001	19/02/2003
6.	074542	मि० राठी राम किशोर, एसीए 59 दामोदर कालोनी रामोहल्ला जोधपुर-342001	01/09/2002	12.	076853	मि० मादिया विनय एन, एसीए एसबी बिल्डीमोरिया एण्ड कं० 8 बी सर्किट हाउस एरिया नार्थ ईस्ट जमशेदपुर-831001	28/09/2001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
13.	077419	मि० अग्रवाल महेश चन्द्र वी.डी, एसीए सी-207 अनुभव कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० राजा इण्डस्ट्रियल इस्टेट के सामने, सर्वोदय नगर पी के रोड एक्सटेन्शन मुलुन्द (वेस्ट) मुम्बई-400080	11/10/2002	20.	079728	मि० जैन अनुज, एसीए पुत्र श्री तारा चंद जैन (एक्सइएन-पीएलसीसी-1) आर-2/4, 220 केवीजीएसएस आर.एस.इ.बी कालोनी, हीरापुर, जयपुर-303011	05/02/2003
14.	077612	मि० जैन रविकान्त, एसीए 5-डी-19, तलवंडी कोटा-324005	21/09/2002	21.	098161	मि० मनोज कुमार, एसीए 2-एफ-24 नेहरू नगर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद-201301	14/06/2002
15.	078364	मि० बिरला योगेश, एसीए 390 मिल्कमैन कालोनी 10वीं स्ट्रीट पाल रोड के सामने जोधपुर-342003	06/01/2003	22.	101150	मि० किशोर कुमार, एसीए 23, पुष्पक अपार्टमेंट्स गवर्नमेन्ट स्कूल के सामने रायपुर-492001	09/12/2002
16.	078625	मि० मनीष गंगवाल, एसीए 201-202 मौर्या पैलेस डायमण्ड कालोनी न्यू प्लासिया इन्दौर-452001	22/07/2002	23.	400129	मिस० पिल्लई शालिनी, एसीए एसआर/एम-4, अरविन्द विहार हाउसिंग बोर्ड कालोनी बाग मुघालिया भोपाल-462026	01/04/2002
17.	079302	मि० विजय राजेश, एसीए 5/385, अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर-302001	30/11/2002	24.	400245	मिस० परख रितु, एसीए जे/71 टैगोर नगर पी ओ हीरापुरा अजमेर रोड जयपुर-302001	26/09/2002
18.	079522	मि० जैन विशाल, एसीए एन-12 जे के लान कालोनी कमला नगर कानपुर	02/09/2002	25.	400415	मि० रस्तोगी गौरव, एसीए आइएफएफसीओ, कलोल यूनिट फाइनेन्स एण्ड एकाउन्ट्स डिपार्टमेंट, पी ओ कस्तूरी नगर गांधीनगर-382423	14/09/2002
19.	079598	मिस० बंसल पारूल, एसीए 41 सूर्या नगर निकट नटराज सिनेमा आगरा-282002	11/02/2003	26.	400472	मि० बंसल पुनीत कुमार, एसीए जी-4 डाइनेस्टी टावर इ-2/14 अरेरा कालोनी भोपाल-462016	20/08/2002

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
27.	400605	मि० सिरपुरकर मोहित, एसीए आइसीआइसीआइ होम फाइनेन्स क० लिमिटेड 115-116 कृष्णा काम्प्लेक्स कचहरी चौक छत्तीसगढ़ रायपुर-492001	02/01/2003	32.	400794	मि० गोविन्दजीवाला आनंद, एसीए 20/4 साउथ टूकोगंज, इंदौर-452001	20/02/2003
28.	400616	मिसेज काले योगिता, एसीए 645 राइट टाउन गोल बाजार जबलपुर-482002	26/07/2002	33.	400886	मि० सेमवाल गौरव, एसीए 7/183 स्वरूप नगर, कानपुर-208002	21/11/2002
29.	400635	मि० खिचा वीरत, एसीए 4/1, ओ.टी.एस. जे एल एन मार्ग जयपुर-302017	18/09/2002	34.	401305	मि० टंडन आशुतोष, एसीए 56/ए, गांधी ग्राम कानपुर-208007	03/03/2003
30.	400769	मि० धूत मुकेश, एसीए बी-250, हडको कालोनी कमला नेहरू नगर जोधपुर-342007	01/09/2002	35.	401629	मि० किदवाई शिबली, एसीए 126/43 चोलाखी निकट निशात सिनेमा केसरबाग लखनऊ-226001	10/03/2003
31.	400770	मि० मेहता राजीव, एसीए मार्फत पी सिंघवी एण्ड एसोसिएट्स सोजती गेट जोधपुर-342001	01/02/2003				


 (डा० अशोक हल्लिया)
 सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली

डिग्रियों का विनिर्देशन

क्रमांक एफ.1-52/97(सीपीपी-11)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 के 3) की धारा 22 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत व दिसंबर, 1985 तक संशोधित और गजट अधिसूचनाओं क्रमांक एफ.87-9/58 (सीयूपी) दिनांक 1-12-1958, एफ.33-72/59(सीयूपी) दिनांक 17-11-1960, एफ.33-87/63(सीयूपी) दिनांक 6-6-1964, एफ.33-87/63(सीयूपी) दिनांक 27-4-1966, और एफ.1-59/66 (सीडीएन) दिनांक 18-6-1968, एफ.1-59/66(सीडीएन) दिनांक 17-2-1969, एफ.1-59/66(सीडीएन) दिनांक 22-12-1969, एफ.1-59/66(सीडीएन) दिनांक 26-2-1971, एफ.1-59/66(सीडीएन) दिनांक 15-11-1973, एफ.1-59/66(सीडीएन/सीपी) दिनांक 18-7-1975 और एफ.1-52/97(सीपीपी-11) दिनांक 24-6-1999, एफ.1-52/2000(सीपीपी-11) दिनांक 21-11-2001 और एफ.1-52/97(सीपीपी-11) दिनांक 3-10-2002 का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार की अनुमति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एतद द्वारा इस धारा के तहत डिग्रियों के लिए नामपद्धति विनिर्दिष्ट करती है। साथ ही साथ इन डिग्रियों को देने के लिए न्यूनतम आवश्यक अकादमिक मानदण्ड भी तय करती है।

डिग्रियों का विनिर्देशन

1. कोई विश्वविद्यालय इस अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन करके डिग्री प्रदान नहीं कर सकेगा। विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे डिग्रियों की अनुमोदित नामपद्धति का अनुपालन करें तथा डिग्री देने से पहले निर्धारित न्यूनतम शिक्षण मानकों का पालन सुनिश्चित करें, जैसा कि इसके आगे निर्धारित किया गया है। किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के संबंध में किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से अकादमिक सहयोग या सहभागिता करने के लिए आयोग से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, जैसा कि इसके आगे निर्धारित किया गया है।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के तहत डिग्रियों के लिए अनुमोदित नामपद्धति की समेकित सूची अलग से संलग्न है। विषय विशेष की दक्षता को अनुमोदित नामपद्धति के साथ कोष्ठक में दर्शाया जा सकता है।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर इस सूची की समीक्षा करेगा, उसका अद्यतन करेगा तथा उसकी सूचना सभी विश्वविद्यालयों को देता रहेगा। अगर कोई विश्वविद्यालय नया डिग्री पाठ्यक्रम लागू करना चाहता है, तो उसे ऐसा पाठ्यक्रम शुरू करने से कम से कम छह महीने पहले यूजीसी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।
4. डिग्री के निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय या संस्थान की संबंधित अकादमिक समितियों जैसे - अध्ययन बोर्ड, अकादमिक परिषद व शासी परिषद - द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित कराना आवश्यक है।
5. सभी विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध कॉलेज पढ़ाई के न्यूनतम स्तर और डिग्री प्रदान करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां संबंधित वैधानिक या नियामक निकायों तथा यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, स्थापत्यकला परिषद, भारतीय बार काउंसिल, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद और भारतीय नर्सिंग परिषद आदि द्वारा अधिसूचनाओं या नियमों के तहत निर्धारित योग्यता प्राप्त अध्यापक व आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था है।
6. यूजीसी से मान्यताप्राप्त जिन डिग्रियों को विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेज प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए संबंधित वैधानिक या नियामक समितियों द्वारा निर्धारित अध्ययन के न्यूनतम मानदंडों और नियमों का उल्लेख प्रवेश विवरणिका में प्रमुख रूप से होना चाहिए।
7. प्रत्येक विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों को समय-समय पर पढ़ाई के न्यूनतम स्तर का पालन करने की सूचना यूजीसी द्वारा निर्धारित फॉर्म में भरकर यूजीसी को भेजनी होगी।
8. यूजीसी समय-समय पर डिग्री देनेवाले विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों, विस्तार/क्षेत्रीय/अध्ययन केंद्रों का निरीक्षण करा सकती है।
9. अगर निरीक्षण के दौरान वहां कोई कमी पायी जाती है, तो यूजीसी संबंधित विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेज को उसे सुधारने व अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवसर दे सकती है।
10. छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों के लिए यह जरूरी है कि वे किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कोई भी अकादमिक सहयोग या सहभागिता के लिए यूजीसी से अनुमति लें। चाहे वह सहयोग डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए किसी फ्रैंचाइजी या अध्ययन केंद्र या आदान-प्रदान का हो। विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कार्यक्रम में छात्रों

को प्रवेश देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह डिग्री/डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट यूजीसी द्वारा विधिवत रूप से विनिर्दिष्ट व अधिसूचित किया गया है।

विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों का यदि कोई सहयोग या सहभागिता पहले से ही है तो उसकी सूचना भी इस अधिसूचना के जारी होने के बाद छह महीनों के भीतर निर्धारित फॉर्म के द्वारा यूजीसी को दी जानी चाहिए।

11. विनिर्देशों का पालन न करने पर विश्वविद्यालयों के लिए परिणाम:

- 11.1 नियमों की अवहेलना करने वाले विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों को अनिर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम को आगे जारी रखने से रोक दिया जाएगा।
- 11.2 अगर उसके बावजूद भी डिग्री दी जाती है, तो उसे यूजीसी पूरी जांच-पड़ताल के बाद अवैध कुरार दे सकती है। उसके बाद यूजीसी चूक करने वाले विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों और उनके द्वारा दी जा रही अनिर्दिष्ट डिग्री संबंधित सूचना को जनसाधारण के लिए प्रकाशित करेगी।
- 11.3 संबंधित विश्वविद्यालयों का यह दायित्व होगा कि वे स्वयं और संबद्ध कॉलेजों में निर्धारित नियमों, मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करें और चूक करने वाले कॉलेजों के उल्लंघन की सीमा को ध्यान में रखकर उनकी संबद्धता रद्द करें।
- 11.4 यूजीसी, उपधारा 11.2 के तहत जारी किये गये आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विश्वविद्यालय को भेजेगी। आदेश की प्राप्ति के दिन से संबंधित पाठ्यक्रम को ले कर उस कॉलेज या संस्था की संबद्धता समाप्त कर दी जायेगी। ऐसी संबद्धता समाप्त होने की तिथि के बाद से उस संस्था को अगले तीन साल तक के लिए उस या उस तरह के डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 11.5 डिग्री के लिए विनिर्देशों संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर चूक करने वाले विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेजों के खिलाफ यूजीसी अधिनियम की धारा 24 के तहत कार्रवाई भी की जायेगी।

24 Jan 2
(प्रो. वेद प्रकाश)
सचिव

यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 22 के तहत विनिर्देशित डिग्रीयां

क्रम	डिग्री का संक्षेप नाम	डिग्री का विस्तार
1.	आचार्य	आचार्य
2.	अलंकार	अलंकार
3.	एएमबीएस	आयुर्वेदिक औषधि और शल्य में स्नातक
4.	अणु पारंगत	एम.फिल
5.	आयुर्वेद वाचस्पति	आयुर्वेद में पीएच.डी.
6.	आयुर्वेदाचार्य	आयुर्वेदाचार्य
7.	बी. आक्र	वास्तुकला में स्नातक
8.	बी.ए., बी.एड	कला स्नातक, शिक्षा स्नातक
9.	बी.एग्री.	कृषि स्नातक
10.	बी.के.ई.	रसायन इंजीनियरिंग में स्नातक
11.	बी.केम.टेक	रसायन तकनीकी में स्नातक
13.	बी.कॉम	वाणिज्य स्नातक
14.	बी.डांस	नृत्य स्नातक
15.	बी.एड.	शिक्षा स्नातक
16.	बी.फार्मा:आयु.	फार्मेसी में आयुर्वेद स्नातक
17.	बी.फार्मा	फार्मेसी में स्नातक
18.	बी.एस.एस.सी	सेनेटरी विज्ञान में स्नातक
19.	बी.एस.सी.	विज्ञान स्नातक
20.	बी.एस.सी. बी.एड.	विज्ञान स्नातक और शिक्षा स्नातक
21.	बी.एस.सी.नर्सिंग	नर्सिंग में विज्ञान स्नातक
22.	बी.एस.सी. :सेरिकल्चर:	सेरिकल्चर में स्नातक
23.	बी.स्टैट	सांख्यिकी में स्नातक
24.	बी. टेक	तकनीकी में स्नातक
25.	बी.टेल.ई.	दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक
26.	बी. टेक्स	टेक्सटाइल में स्नातक
27.	बी.वी.एससी.	पशु विज्ञान में स्नातक
28.	बी.वी.एस.सी. ऐंड ए.एच.	पशु विज्ञान और पालन में स्नातक
29.	बी.ए.	कला स्नातक
30.	बी.लिब. एससी.	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक
31.	बी.ए.एम.	आयुर्वेदिक औषधि में स्नातक
32.	बी.ए.एम.एस.	आयुर्वेदिक औषधि और शल्य में स्नातक
33.	बी.बी.ए.	व्यापार प्रशासन में स्नातक
34.	बी.बी.एम.	व्यापार प्रबंधन में स्नातक
35.	बी.सी.ए.	कंप्यूटर प्रयोग में स्नातक
36.	बी.सी.ई.	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक
37.	बी.सी.एल.	नागरिक विधि में स्नातक
38.	बी.डी.एस.	दंत चिकित्सा में स्नातक
39.	बी.ई.	इंजीनियरिंग में स्नातक

40. बी.ई.ई.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक
41. बी.एफ.ए.	ललित कला में स्नातक
42. बी.एफ.एससी.	मत्स्य पालन में स्नातक
43. बी.जी.एल.	सामान्य विधि में स्नातक
44. भाषा प्रवीण	भाषा प्रवीण
45. बी.एच.एम.एस.	होम्योपैथिक औषधि और शल्य में स्नातक
46. बी.आई.एम.	भारतीय औषधि में स्नातक
47. बी.जे.	पत्राकारिता स्नातक
48. बी.एल.	विधि स्नातक
49. बी.लिब.आई.एससी.	पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में स्नातक
50. बी.लिट.	साहित्य स्नातक
51. बी.एम.बी.एस.	औषधि और शल्य में स्नातक
52. बी.एम.ई.	मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक
53. बी.म्यूज.	संगीत स्नातक
54. बी.नैच :आयुः	आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा स्नातक
55. बी.नर्स.	नर्सिंग में स्नातक
56. बी.ओएल.	प्राच्य अध्ययन में स्नातक
57. बी.ओटी.	ऑकुपेशनल थिरेपी में स्नातक
58. बीपीए	प्रदर्शनीय कलाओं में स्नातक
59. बीपीएड.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक
60. बी.पी.ई.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक
61. बीपीपी	शारीरिक योजना में स्नातक
62. बीपीएस	व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक
63. बीपीटी	फिजियोथिरेपी में स्नातक
64. बी.एसएमएस	श्रीधर औषधि और शल्य में स्नातक
65. बी.एसडब्ल्यू	समाज कार्य में स्नातक
66. बीटी	प्रशिक्षण में स्नातक
67. डी.आय.एम.	आयुर्वेदिक औषधि में आचार्य
68. डी.एड.	शिक्षा में आचार्य
69. डी.इंज.	इंजीनियरिंग में आचार्य
70. डी.एचवी.	आरोग्य विज्ञान में आचार्य
71. डी.लिट.	साहित्य में आचार्य
72. डी. म्यूज.	संगीत में आचार्य
73. पीएच.डी.	दर्शनाचार्य?
74. डी.एससी.	विज्ञान में आचार्य
75. डी.एल.	विधि में आचार्य
76. डीओएल	प्राच्य अध्ययन में आचार्य
77. डी.एम.	औषधि में आचार्य :हृदय रोग:
78. ग्रंथालय	ग्रंथालय
79. हिंदी शिक्षा विशारद	हिंदी शिक्षा विशारद
80. एलएलबी	विधि स्नातक

81. एलएलडी	विधि में आचार्य
82. एलएलएम	विधि में स्नातकोत्तर
83. एम.आक्र	वास्तुकला में स्नातकोत्तर
84. एम.च.	चिरुरजी में स्नातकोत्तर?
85. एम.के.ई.	रासायनिक इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर
86. एम.कॉम.	वाणिज्य में स्नातकोत्तर
87. एम.डांस	नृत्य में स्नातकोत्तर
88. एम.एड.	शिक्षा में स्नातकोत्तर
89. एम.इंड.	भारत विद्या में स्नातकोत्तर
90. एम.लिब.एससी.	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर
91. एम.लिट.	साहित्य में स्नातकोत्तर
92. एम.म्यूज.	संगीत में स्नातकोत्तर
93. एम. फार्मा	फार्मेसी में स्नातकोत्तर
94. एम.फिल.	दर्शन-निष्णात
95. एम.प्लान	योजना में स्नातकोत्तर
96. एमपीई	शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर
97. एम.एससी.	विज्ञान में स्नातकोत्तर
98. एम.स्टैट	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर
99. एम. टेक	तकनीकी में स्नातकोत्तर
100. एम.टेक्स्ट	टेक्सटाइल में स्नातकोत्तर
101. एम.वी.एससी.	पशु विज्ञान में स्नातकोत्तर
102. एम.ए.	कला में स्नातकोत्तर
103. एमबीए	व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर
104. एम.बी.बी.एस.	औषधि और शल्य में स्नातकोत्तर
105. एमसीए	कंप्यूटर प्रयोग में स्नातकोत्तर
106. एम.डी.	औषधि में आचार्य
107. एमडीएस	दंत शल्य में स्नातकोत्तर
108. एम.ई.	इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर
109. एमईई	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर
110. एमएफ.एससी.	मत्स्यपालन विज्ञान में स्नातकोत्तर
111. एमएफए	ललित कला में स्नातकोत्तर
112. एमजे	पत्राकारिता में स्नातकोत्तर
113. एमएल	विधि में स्नातकोत्तर
114. एमएलआईएससी.	पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर
115. एमएमई	मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर
116. एमओ	प्रसूति मामलों में स्नातकोत्तर
117. एमओएल	प्राच्य अध्ययन में स्नातकोत्तर
118. एमपीएएड.	शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर
119. एमपीए	प्रदर्शनीय कलाओं में स्नातकोत्तर
120. एमपीएस	जनसंख्या अध्ययन में स्नातकोत्तर
121. एमपीटी	फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर

122. एमएस	शल्यक्रिया में स्नातकोत्तर
123. एमएएमएस	औषधि और शल्य में स्नातकोत्तर
124. एमएसडब्ल्यू	समाज कार्य में स्नातकोत्तर
125. एमयूएमएस	यूनानी औषधि व शल्य में स्नातकोत्तर
126. पारंगत	पारंगत
127. डी.फिल.	दर्शनाचार्य
128. समाज कार्य पारंगत	समाज कार्य पारंगत
129. समाज विद्या पारंगत	समाज विद्या पारंगत
130. समाज विद्या विशारद	समाज विद्या विशारद
131. शास्त्री	शास्त्री
132. शिक्षा आचार्य	शिक्षा आचार्य
133. शिक्षा पारंगत	शिक्षा पारंगत
134. शिक्षा शास्त्री	शिक्षा शास्त्री
135. शिक्षा विशारद	शिक्षा विशारद
136. वाचस्पति	वाचस्पति
137. विद्या निष्णात	विद्या निष्णात
138. विद्या प्रवीण	विद्या प्रवीण
139. विद्या वाचस्पति	विद्या वाचस्पति
140. विद्या वारिधि	विद्या वारिधि
141. विद्यालंकार	विद्यालंकार
142. विशारद	विषारद

dyani 3
(प्रो. वेद प्रकाश)
सचिव

STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP

Mumbai, the 10th January 2004

SBD. No. 17/2003-04—In terms of clause(c), Sub-Section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India vide notification No. SBD 13/2003 dated 8th October 2003 had nominated Shri C. Bhattacharya, DMD & GE (A&S), State Bank of India, Mumbai, as a Director on the Boards of the following Associate Banks w.e.f. 8th October 2003:—

- (1) State Bank of Bikaner & Jaipur
- (2) State Bank of Hyderabad
- (3) State Bank of Indore
- (4) State Bank of Mysore
- (5) State Bank of Patiala
- (6) State Bank of Saurashtra
- (7) State Bank of Travancore.

Even though Shri C. Bhattacharya has since been appointed as a Managing Director of State Bank of India w.e.f. 17.12.2003, he continues to be a Director on the Boards of Associate Banks mentioned above until further notice.

A. K. PURWAR
Chairman

**CORPORATION BANK
CORPORATE OFFICE**

Ref No.ISD:629:2003-04

Mangalore-575 001, the 8th January 2004

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Corporation Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend Corporation Bank General Regulations, 1996, namely,

1. (1) These regulations may be called the Corporation Bank General (Amendment) Regulations, 2003. .
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. "Corporation Bank General Regulations, 1996" shall be renamed as "Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1996".
3. In Regulation 2 of Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1996, Regulation so renamed, .
 - (i) for clause (e), the following shall be substituted, namely:-
"(e) 'Committee' means a Committee constituted under regulation 2A";
 - (ii) in clause (i), the following words and figures shall be inserted at the end, namely:-
"and register of beneficial owners maintained by and depository under section 11 of the Depository Act, 1996 (22 of 1996)".
4. after regulation 2, the following new regulation shall be inserted, namely:-
 - "2A(i) Except as provided in Clause (ii) of regulation 67, the Board may constitute, as and when necessary, a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other directors as it may deem fit, for the purposes of these regulations;
 - (ii) The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of procedure as may be specified by the Board".
5. in regulation 5, Clause (v) shall be omitted.
6. After regulation 5, the following regulation shall be inserted namely:-

- "5A(i)** The Bank shall, unless the register is in such form as in itself to constitute an index, keep an index, which may be in form of a card index of the names of shareholders and shall, within fourteen days after the date on which any alteration is made in the register of shareholders, make the necessary alteration in the index.
- (ii)** The index shall be kept with the register of shareholders".
7. In regulation 7, in clause (ii) for the words "in case of firms", the words "In case of partnership firms" shall be substituted.
8. In regulation 8, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(iii)** The register in electronic form shall be maintained subject to such safeguards as stipulated for securing electronic records under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)."
9. In regulation 11, in clause (ii) for the words "at the rate of Rs.5/- for every 100 words", the words "at the rate of Rs.5/- or at such rate as the Board may decide for every 1000 words" shall be substituted. .
10. For regulation 12, the following shall be substituted, namely:-
- "12.** Closing of the register - The Bank may, after ensuring compliance of the applicable guidelines and the listing agreement with the Stock Exchanges, and after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as may in its opinion, be necessary".
11. In regulation 13,
- (i)** In clause (ii) for the words "some other officer appointed by the Board", the words "some other officer not below the rank of Scale II or the Company Secretary" shall be substituted; .
- (ii)** Clause (v) shall be omitted.
12. In regulation 15, for the heading "Renewal of share certificate" the following shall be substituted, namely:
- "Issue of new or duplicate share certificate". .**
13. In regulation 17, for the clauses (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-
- "(iii)** Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar or Share Transfer Agent for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with

the share certificate, if any, to the transferee for resubmission unless the instrument of transfer is presented to the bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

Explanation:- "Technical requirements" means

- (a) Transfer deed shall be duly stamped;
 - (b) Certificate number or distinctive number mentioned in the transfer deed shall tally with the share certificate;
 - (c) Transferor's signature shall tally;
 - (d) Transfer deed shall be witnessed."
 - (iv) The Board or the Committee designated by the Board shall, unless it refuses to register the transfer under regulation 19 hereinafter, cause the transfer to be registered.
 - (v) Unless the transfer of shares is refused under regulation 19, the share certificate duly transferred shall be delivered to the transferee within ~~sbdy~~ days from the date of lodging of the instrument of transfer'.
14. In regulation 19:-

- (i) In clause (i) for the words "The Board may refuse", the words "The Board or Committee may refuse" shall be substituted;
- (ii) The proviso to clause (i) shall be omitted;
- (iii) In clause (ii) –
 - (a) In the opening portion for the words "The Board shall", the words "the Board or Committee shall" shall be substituted
 - (b) For sub-clause (b), the following sub-clause be substituted, namely:-

"If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub regulation (i) intimate the same to the Transferor and the Transferee by notice in writing giving reasons for such refusal within 60 days from the receipt of transfer form or within such period as may be laid down in the Listing Agreement with the concerned Stock Exchange".

15. The following Explanation shall be inserted in regulation 21, namely:-

"Explanation- For the purposes of this regulation, a shareholder may cease to be qualified for registration, -

- (a) If he is a guardian of minor, on the minor attaining the majority;
- (b) If he is holding shares as a Karta, on his ceasing to be a Karta".

16. In regulation 32, for the words "by a resolution of the Board to that effect" the words "by a resolution of the Board to that effect at its next meeting to be held after the expiry of the notice of forfeiture under regulation 31" shall be substituted.
17. In regulation 44, for the words "any other Officer of the Bank", the words "Company Secretary or any other Officer of the Bank not below the rank of Scale II" shall be substituted.
18. In Regulation 46, in proviso to the clause (ii), -
 - (i) for the words "by registered post, with or without acknowledgement due", the words "by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode" shall be substituted;
 - (ii) The words "or electronic media, as the case may be" shall be inserted after the words "ordinary course of post".
19. In Chapter III, -
 - (i) in regulation 47, for the words "one or more depository", the words "one or more depository as defined in section 2(e) of the Depositories Act, 1996" shall be substituted;
 - (ii) regulations 48 to 55 shall be omitted.
20. In regulation 56, in clause (i), for the words "any authorised official" the words "any officer not below the rank of Scale VII or Company Secretary" shall be substituted.
21. After regulation 61, the following regulations shall be inserted, namely:-

"61A Scrutineers at Poll

 - (i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.
 - (ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineers from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.
 - (iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or employee of the Bank) present at the meeting; provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.

61B. Manner of taking poll and result thereof.

 - (i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.

- (ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken".
22. In regulation 62, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely,
- "(iv) On written request made by a shareholder for inspection of the minute book or for a copy of the minute of a specified meeting, the Bank shall allow the inspection or furnish the copy of the minute, as the case may be, to the shareholder".
23. In regulation 65, in Clause (i), in sub-clause (a), for the words "holding 100 (one hundred) shares", the words "holding not less than 100 (one hundred) shares" shall be substituted.

(K. Achutha Pal)
GENERAL MANAGER

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 7th January 2004

No. N-15/13/14/3/2003-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January 2004, as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamilnadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamilnadu namely :—

"Areas comprising the Revenue Villages of Achampathu, Vadapalanji and Karadipatti of Madurai South Taluk in Madurai Distt."

R. C. SHARMA
Jt. Director (P&D)

No.N-12/13/4/2003-P&D: In exercise of powers conferred by Section 97 of Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following Regulations to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the same having been previously published in the Gazette of India Part-III, Sec.4 dated July 26, 2003, inviting objections/suggestions, if any, as required by sub Section (1) of the said Section, namely :-

1. (i) These Regulations may be called the Employees' State Insurance (General) (Amendment) Regulations, 2003.
(ii) These will come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. In the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 –

1. **Regulation 11. Declaration by persons in employment on appointed day –**

In this Regulation, the following words shall be inserted between the words "either before or on the appointed day correct particulars" and "required for the purpose of Form 1" :

"along with his/her photograph and that of his/her family"

2. **Regulation 12: Declaration by persons engaged after the appointed day:**

In Sub-Regulation (1), the following words shall be inserted between the words – "shall on demand furnish to him correct particulars" and "required for the Declaration Form including the Temporary Identification Certificate" :

"along with his/her photograph and that of his/her family"

3. Regulation 15-A : Registration of Families:

In this Regulation, the following words shall be inserted between the words – “shall furnish to the employer correct particulars” and “In respect of his family in Form 1-A”

“along with their photograph.”

4. Regulation 17 : Identity Cards:

In this Regulation, the following words shall be inserted between the words – “an Identity Card prepared in Form-4 for each person” and “in respect of whom an insurance number is allotted” :

“along with the photograph”

AND

“shall include in such card the particulars” and “of the family entitled to medical benefit under Regulation 95-A” :

“and photograph”

5. Form 4-A under Regulation 95-A : Medical Benefit to families of Insured Persons.

In this Regulation, the existing Form 4-A shall be substituted by the following new Form 4-A.

FAMILY IDENTITY CARD**FORM 4-A**
(Regulation 95-A)

Insurance No.

--	--

Local Office/Regional Office:
To which attachedName of the
Insured Person :

Sex: Male/Female :

Address of Family:

Dispensary of IP:

Dispensary/ Region
of family:


Particulars of members of family as given in the Declaration From by the IP.

S.No.	Name	Date of Birth	Relationship with IP	Identification Mark

Signature or Thumb
impression of the Insured
Person(Rubber Seal of Issuing
Office)Signature/designation of
Issuing Authority.**Instructions:**

1. Report loss immediately to the Dispensary/Local Office to which Insured Person/family is attached.
2. Finder of this card may please return it to the address of family indicated above, r post to ESI Local Office/Dispensary.

Family photograph duly attested (on reverse side)

**(A.J. PAWAR)**
Insurance Commissioner

The Institute of Chartered Accountants of India
NORTHERN REGIONAL OFFICE

(Chartered Accountants)

New Delhi-110002, the 8th January 2004
 3NCA(4)/2/2002-2003 : In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date (s) mentioned against the names of the following members :

S.No.	MRN	Name & Address	Removal Date
1	000632	Mr. GOEL VISHWA NATH DELHI PRESS BUILDING E-3 JHANDEWALAN ESTATE RANI JHANSI MARG NEW DELHI-110055	18/05/2002
2	001019	Mr. SATYAPAL MEHRA B-26 WEST END COLONY, NEW DELHI-110021	06/04/2001
3	002983	Mr. AGGARWAL CHANDRA SHAKHER A-701 CA APARTMENTS PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110063	18/05/2002
4	004110	Mr. SARDANA JAGDISH CHANDRA S-216, GREATER KAILASH PART-I NEW DELHI-110048	19/02/2003
5	004182	Mr. SINGH HARINDAR D SINGH & CO C-97 PANCHSHEEL ENCLAVE NEW DELHI-110017	25/05/2002

6	005444	Mr. VIJ SITA RAM S R VIJ & CO XV/3271 D B GUPTA ROAD NEW DELHI-110005	07/02/2003
7	006155	Mr. ROHATGI MAGAN BEHARI ALIAS BANKEY BEHARI ROHATGI P 3834/XI G-I PATAUDI HOUSE ROAD DARYA GANJ NEW DELHI-110002	16/05/2001
8	006177	Mr. GOEL MAHENDRA KUMAR MEHRA GOEL & CO 505 CHIRANJIV TOWER NEHRU PLACE NEW DELHI-110019	12/11/2002
9	007247	Mr. BERI JAIPAL 'BERI BHAWAN' 92 KENNEDY AVENUE (PUNJAB) AMRITSAR-143001	02/10/2002
10	007429	Mr. GOEL JAI BHAGWAN DAS 83 SRM COOP-GROUP HOUSING SOCIETY LTD. PLOT NO 106 I P EXTN PATPAR GANJ DELHI-110092	05/11/2002
11	007900	Mr. THAPAR SUBHASH CHANDER HOUSE NO. 249, SECTOR 19-A CHANDIGARH - 160019	17/04/1997
12	009473	Mr. MANCHANDA NAND KISHORE RAILWAY ROAD SHARMA PLACE PHAGWARA-144401	28/01/2003
13	009528	Mr. GUREJA VIDYA SAGAR K B CHANDNA & CO E-27 N D S E PART II NEW DELHI-110049	21/05/2002

14	011629 Mr. CHAWLA YASH PAUL M/S. Y.P. CHAWLA & CO 151 D.D.A. OFFICE COMPLEX JHANEWALAN CYCLE MARKET PHASE-I NEW DELHI-110055	13/08/2002	22	081118 Mr. VINOD KUMAR VINOD TUTEJA & CO XVI/2393 HARDHAN SINGH ROAD KAROL BAGH NEW DELHI-110005	27/10/2001
15	013849 Mr. THAREJA KRISHAN KUMAR E-73 & 74 LOWER GROUND FLOOR AMAR COLONY NEW DELHI-110024	23/05/2002	23	081632 Mr. GUPTA RAM AJTAR R A GUPTA & CO 51 (II FLOOR) RANI JHANSI ROAD NEW DELHI-110055	23/12/2002
16	014058 Mr. PERIWAL SHYAM SUNDER S S PERIWAL & CO OPP. TO DAYANAND MEDICAL COLLEGE CIVIL LINES LUDHIANA-141001	24/09/2002	24	081840 Mr. GOYAL SUBHASH SUBHASH GOYAL & ASSOCIATES MOTIA KHAN AMLOH ROAD MANDI GOBINDGARH-147301	21/11/2002
17	015620 Mr. JAIN PAVEN KUMAR 5 CC-II ADDITIONAL MANDI SIRSA-125055	04/12/2002	25	082692 Mr. JAIN VINOD KUMAR A V KISHORE & CO 400 HAUZ QAZI CHOWK CORNER SITA RAM BAZAR DELHI-110006	05/10/2002
18	016888 Mr. AGGARWAL PURSHOTAM KUMAR 245 IIND FLOOR 187 KATRA MASHROO DARIBA KALAN DELHI-110006	07/03/2002	26	083448 Mr. NARINDER SINGH 2 MALVIYA ENCLAVE ADJOINING SITI CABLE OFFICE M M MALVIYA ROAD AMRITSAR-0	18/12/2002
19	080789 Mr. MATHUR DINESH D-298 NIRMAL VIHAR DELHI-110092	19/01/2002	27	086685 Mr. GOEL SUBHASH CHAND 186, POCKET C-9, SECTOR 7 ROHINI, DELHI-11085	08/07/2000
20	081049 Mr. BHARDWAJ PRAMOD KUMAR C/O A.K. MAHESHWARI & CO. 4808, BHARAT RAM ROAD 24, DARYA GANJ NEW DELHI-110002	12/06/2002	28	092543 Mr. MALHOTRA PRAG H NO 73 GOBIND NAGAR AMBALA CANTT AMBALA-133001	31/07/2002
21	081061 Mr. SHARMA ADISHWAR KUMAR ADISHWAR KUMAR & CO 5265 SHARDHA NAND MARG AJMERI GATE DELHI-110006	07/09/2002			

ASHOK HALDIA
(Dr. ASHOK HALDIA)
SECRETARY

(Chartered Accountants)

Kanpur-208001, the 27th October 2003

3CCA(8) (1)/2003-2004 : In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(I) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	MRN	Member Name & Address	Date	S. No.	MRN	Member Name & Address	Date
1.	005631	Mr. Agrawal Shyam Sunder, FCA Birla Cement Works Madhav Nagar P.O. Cement Factory Chittorgarh - 312021	01/10/2002	7.	074935	Mr. Malpani Sanjay, FCA E-223 Ganesh Park Amba Bari Jaipur - 302023	20/11/2002
2.	073065	Mr. Mehrotra Avinash, FCA Room No. 6, 10 th Floor Somdutt Plaza 10, The Mall Kanpur - 208001	09/01/2003	8.	075725	Mr. Ajmera Naveen, FCA Near NCC Office Sindhu Nagar Bhilwara - 311001	01/09/2002
3.	073702	Mr. Khandelwal Prem Shanker, FCA 63 Sultanpur Road Arjunanj Lucknow - 226002	30/08/2002	9.	076201	Mr. Kasera Vivek, FCA Flat No. 103 Saraswati Apartment Chandganj Garden, Aliganj Lucknow - 226024	21/01/2003
4.	074040	Mr. Zabakh Rajendra Kumar, ACA 2 Banjara Colony, Near RPS Colony Vallabh Nagar Kota - 324007	17/03/2003	10.	076445	Mr. Jain Sanjay Kumar, FCA 102 Otel House 162 Uper Goving Nagar Malad (E) Mumbai - 400097	26/12/2002
5.	074208	Mr. Agarwal Vinay Prakash, ACA 15-B Kasturba Nagar Sigra, Varanasi - 221010	24/09/2002	11.	076489	Mr. Bhatnagar Sharad, FCA 255/36 Maliwara Vasant Road Ghaziabad - 201001	19/02/2003
6.	074542	Mr. Rathi Ram Kishore, ACA 59 Damodar Colony Ramohalla Jodhpur - 342001	01/09/2002	12.	076853	Mr. Madia Vinay N, ACA S B Billimoria & Co. 8 B Circuit House Area North East Jamshedpur - 831001	28/09/2001

S. No.	MRN	Member Name & Address	Date	S. No.	MRN	Member Name & Address	Date
13.	077419	Mr. Agarwal Mahesh Chandra V B, ACA C-207 Anubhav Co-op HSG Society Ltd., Opp Raja Industrial Estate Sarvodaya Nagar, P K Road Extn. Mulund (W) Mumbai -400080	11/10/2002	23.	400129	Ms. Pillai Shalini, ACA SR/M - 4, Arvind Vihar Housing Board Colony, Bagh Mughalia, Bhopal - 462026	01/04/2002
14.	077612	Mr. Jain Ravi Kant, ACA 5-D-19, Talwandi Kota-324005	21/09/2002	24.	400245	Ms. Parakh Ritu, ACA J/71 Tagore Nagar, P.O. Hcerapura Ajmer Road, Jaipur - 302001	26/09/2002
15.	078364	Mr. Birla Yogesh, ACA 390 Milkman Colony 10 th Street Opp. Pal Road, Jodhpur - 342003	06/01/2003	25.	400415	Mr. Rastogi Gaurav, ACA IFFCO, Kalol Unit, Finance & Accounts Deptt. P.O. Kasturi Nagar, Gandhinagar - 382423	14/09/2002
16.	078625	Mr. Manish Gangwal, ACA 201-202 Morya Palace Diamond Colony, New Palasia Indore - 452001	22/07/2002	26.	400472	Mr. Bansal Puncet Kr., ACA G-4, Dynasty Tower E-2/14 Arera Colony, Bhopal - 462016	20/08/2002
17.	079302	Mr. Vijay Rajesh, ACA 5/385, Agrawal Farm Mansarover, Jaipur - 302001	30/11/2002	27.	400605	Mr. Sirpurkar Mohit, ACA ICICI Home Finance Co Ltd I15-I16 Krishna Complex Kutchhary Chowk Chhattisgarh Raipur-492001	02/01/2003
18.	079522	Mr. Jain Vishal, ACA N-12 Jay Kay Lon Colony Kamla Nagar, Kanpur-0	02/09/2002	28.	400616	Mrs. Kale Yogita, ACA 645, Wright Town Gol Bazar, Jabalpur - 482002	26/07/2002
19.	079598	Ms. Bansal Parul, ACA 41 Surya Nagar, (Near Natraj Cinema) Agra - 282002	11/02/2003	29.	400635	Mr. Khicha Virat, ACA 4/1, O.T.S. J L N Marg Jaipur - 302017	18/09/2002
20.	079728	Mr. Jain Anuj, ACA S/o Sri Tara Chand Jain (XEN - PLCC-I) R II/4, 220 KVGSS, R.S.E.B. Colony, Heerapur, Jaipur - 303011	05/02/2003	30.	400769	Mr. Dhoot Mukesh, ACA E-250, Hudco Colony Kamla Nehru Nagar Jodhpur - 342007	01/09/2002
21.	098161	Mr. Manoj Kumar, ACA II-F-24, Nehru Nagar, U.P. Ghaziabad- 201201	14/06/2002	31.	400770	Mr. Mehta Rajiv, ACA C/o P Singhvi & Associates Sojati Gate Jodhpur - 342001	01/02/2003
22.	101150	Mr. Kishore Kumar, ACA 23, Pushpak Apartments, Opp Government School Raipur - 492001	09/12/2002	32.	400794	Mr. Govindjiwala Anand, ACA 20/4, South Tukoganj, Indore - 452001	20/02/2003

S. No.	MRN	Member Name & Address	Date	S. No.	MRN	Member Name & Address	Date
33.	400886	Mr. Semwal Gaurav, ACA 7/183, Swaroop Nagar, Kanpur - 208002	21/11/2002	35.	401629	Mr. Kidwai Shiblee, ACA 126/43, Cholakhi Near Nishat Cinema, Kaiserbagh, Lucknow - 226001	10/03/2003
34.	401305	Mr. Tandan Ashutosh, ACA 56/A, Gandhi Gram, Kanpur - 208007	03/03/2003				



(Dr. ASHOK HALDIA)
SECRETARY

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NEW DELHI**

SPECIFICATION OF DEGREES

No.F.1-52/97 (CPP-II)

In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 22 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) as modified upto December, 1985 and in supersession of Gazette Notification No.F.87-9/58 (CUP) dated 1.12.58, F.33-72/59 (CUP) dated 17.11.1960, F.33-87/63 (CUP) dated 6.6.1964, F.33-87/63 (CUP) dated 27.4.1966 and F.1-59/66 (CDN) dated 18.6.1968, F.1-59/66 (CDN) dated 17.2.1969, F.1-59/66 (CDN) dated 22.12.1969, F.1-59/66 (CDN) dated 26.2.1971, F.1-59/66 (CDN) dated 15.11.1973, 1-59/66 (CDN/CP) dated 18.07.1975 and F.1-52/97 (CPP-II) dated 24.06.1999, F.1-52/2000 (CPP-II) dated 21.11.2001 and F.1-52/97 (CPP-II) dated 03.10.2002, the University Grants Commission (UGC) with the approval of the Central Government hereby specifies the nomenclature of degrees for the purposes of the said section as also the mandatory requirements viz. minimum essential academic inputs required for awarding such degrees.

Specification of Degree:

1. No University shall confer a degree in violation to the provisions of this notification. It shall be mandatory for the Universities to adhere to the approved nomenclature of the degree(s) and ensure the observance of the minimum standards of instruction before award of a degree as hereinafter prescribed. Academic collaborations with the foreign Universities for the grant of any degree/ diploma/ certificate shall also require prior approval of the commission as hereinafter prescribed.
2. The consolidated list of UGC approved nomenclature of degree(s) for the purpose of Section 22 (3) of the University Grants Commission Act, 1956 is enclosed as Annexure. The approved nomenclature may be followed by the specific area of specialization to be reflected in the parentheses.
3. This list shall be reviewed and updated by the UGC from time to time under intimation to all the universities. If a university wishes to start a new course it shall approach the UGC for its approval six months prior to starting the degree programme.

4. The courses of study prescribed for the degree should have been formally approved by the respective academic bodies of the university / institution, such as – Board of Studies, Academic Council and Governing Council.
5. All the universities (including affiliated colleges thereto) shall observe the minimum standards of instruction and prescribed norms for the grant of a degree which shall be imparted by the duly qualified teaching staff and appropriate academic physical infrastructure facilities as prescribed by the concerned statutory / regulating bodies, such as University Grants Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Pharmacy Council of India (PCI), Council for Architecture (CoA), Bar Council of India (BCI), National Council for Teachers Education (NCTE), Dental Council of India (DCI), Indian Nursing Council (INC) etc. in their respective notifications/ regulations.
6. The list of UGC approved degrees offered by a University and the minimum standards of instruction and norms prescribed as laid down by the concerned statutory / regulatory bodies shall be prominently published in the admission brochure of concerned University / affiliated College.
7. Each University shall furnish information relating to the conformity to the above standards of instructions (including its affiliated colleges) to the UGC in the **form prescribed** from time to time for this purpose
8. The UGC may cause periodic inspection of the University and its affiliated colleges including extension/ regional/ study centers and such other facilities offering the courses leading to a degree.
9. After such inspection, the UGC may give reasonable opportunity to the defaulting University / affiliated colleges to rectify the identified deficiency/ non-conformity.
10. To safeguard the interest of the students, it would be mandatory for a University or any college affiliated to it to seek prior approval of the University Grants Commission before entering into any academic collaboration such as franchise, study centre tie-up or the twinning arrangement etc. with any foreign university leading to award of any degree / diploma / certificate. It would be the responsibility of the concerned University / affiliated College to ensure that such a degree/ diploma / certificate has been duly specified and notified by the commission before admitting the students to programs leading to such degree / diploma / certificate.

Existing Academic collaborations, if any, shall be reported by the respective University (inclusive of affiliated colleges) to the commission in the form prescribed for this purpose within six months of the issue of this notification.

11. Consequences of failure of Universities to comply with these specifications:

- 11.1. The defaulting University / Affiliated College shall be prohibited from offering any course for the award of unspecified degree.
- 11.2. Any degree awarded in contravention to this notification shall be deemed to be an unspecified degree and shall be declared as such by the UGC after duly satisfying itself as to the violation of this notification. The UGC shall give due publicity regarding the defaulting Universities/ colleges and unspecified degrees offered by them for the information of the general public.
- 11.3. It shall be the responsibility of the respective University to keep a watch over the observance of prescribed norms by itself and by the affiliated colleges and disaffiliate the defaulting colleges to the extent of violations.
- 11.4. The UGC shall forward a copy of the order made under the sub-section 11.2 to the university concerned, and on and from the date of receipt of a copy of such order by the university, the affiliation of such an institution, so far as it relates to the course of study specified in such order, shall stand terminated. On and from the date of termination of such affiliation, and for the period of three years thereafter, approval shall not be granted to that institution to start such or similar degree or post-graduate degree programme.
- 11.5. Contravention of the provisions relating to the specification of degrees as above shall also render the defaulting university and affiliated colleges liable for action as prescribed under Section 24 of the UGC Act.


(Prof. Ved Prakash)
Secretary

**THE DEGREES SPECIFIED BY THE UGC UNDER SECTION 22 OF THE UGC
ACT TILL 21ST AUGUST, 2003**

S. No.	Abbreviation of Degree	Expansion of Degree
1.	Acharya	Acharya
2.	Alankar	Alankar
3.	AMBS	Ayurvedacharya Bachelor of Medicine & Surgery
4.	Anu Parangat.	M.Phil
5.	Ayurveda Vachaspati	Ph.D. In Ayurveda
6.	Ayurvedacharya	Ayurvedacharya
7.	B. Arch.	Bachelor of Architecture
8.	B.A. B.Ed.	Bachelor of Arts and Bachelor of Education
9.	B.Agr.	Bachelor of Agriculture
10.	B.Ch.E.	Bachelor of Chemical Engg.
11.	B.Chem. Tech	Bachelor of Chemical Technology
12.	B.com	Bachelor of Commerce
13.	B.Com. B.Ed	Bachelor of Commerce and Bachelor of Education
14.	B.Dance	Bachelor of Dance
15.	B.Ed	Bachelor of Education
16.	B.Pharm (Ayu.)	Bachelor of Ayurved in Pharmacy
17.	B.Pharm.	Bachelor of Pharmacy
18.	B.S.Sc.	Bachelor of Sanitary Science
19.	B.Sc.	Bachelor of Science
20.	B.Sc. B.Ed.	Bachelor of Science and Bachelor of Education
21.	B.Sc.(Nursing)	Bachelor of Science in Nursing
22.	B.Sc.(Sericulture)	Bachelor of Science in Sericulture
23.	B.Stat.	Bachelor of Statistics
24.	B.Tech.	Bachelor of Technology
25.	B.Tel.E.	Bachelor of Telecommunication Engg.
26.	B.Text	Bachelor of Textiles
27.	B.V.Sc.	Bachelor of Veterinary Science

28.	B.V.Sc. & A.H	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry
29.	BA	Bachelor of Arts
30.	B. Lib. Sc.	Bachelor of Library Science
31.	BAM	Bachelor of Ayurvedic Medicine
32.	BAMS	Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery
33.	BBA	Bachelor of Business Administration
34.	BBM	Bachelor of Business Management
35.	BCA	Bachelor of Computer Applications
36.	BCE	Bachelor of Civil Engineering
37.	BCL	Bachelor of Civil Law
38.	BDS	Bachelor of Dental Surgery
39.	BE	Bachelor of Engineering
40.	BEE	Bachelor of Electrical Engg.
41.	BFA	Bachelor of Fine Arts
42.	BFSc.	Bachelor of Fisheries Science
43.	BGL	Bachelor of General Law
44.	Bhasha Parveena	Bhasha Parveena
45.	BHMS	Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery
46.	BIM	Bachelor of Indian Medicine
47.	BJ	Bachelor of Journalism
48.	BL	Bachelor of Law or Laws
49.	B.Lib.I.Sc.	Bachelor of Library and information Science
50.	B.Litt.	Bachelor of Literature
51.	BMBS	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
52.	BME	Bachelor of Mechanical Engineering
53.	B.Mus	Bachelor of Music
54.	B.Nat (Ayu)	Bachelor of Ayurved in Naturopathy
55.	B.Nurs.	Bachelor of Nursing
56.	BOL	Bachelor of Oriental Learning
57.	BOT	Bachelor of Occupational Therapy
58.	BPA	Bachelor of Performing Arts
59.	BPED	Bachelor of Physical Education

60.	B.P.E.	Bachelor of Physical Education
61.	BPP	Bachelor of Physical Planning
62.	BPS	Bachelor of Professional Studies
63.	BPT	Bachelor of Physiotherapy
64.	BSMS	Bachelor of Sridhar Medicine & Surgery
65.	BSW	Bachelor of Social Work
66.	BT	Bachelor of Training
67.	D.Ay. M.	Doctor of Ayurvedic Medicine
68.	D.Ed.	Doctor of Education
69.	D.Eng.	Doctor of Engineering
70.	D.HV.	Doctor of Hygiene
71.	D.Litt.	Doctor of Literature
72.	D.Mus.	Doctor of Music
73.	Ph.D.	Doctor of Philosophy
74.	D.Sc.	Doctor of Science
75.	DL	Doctor of Law
76.	D.M.	Doctor of Medicine (in Cardiology)
77.	DOL	Doctor of Oriental Learning
78.	Granthalaya	Granthalaya
79.	Hindi Shiksha Visharad	Hindi Shiksha Visharad
80.	LLB	Bachelor of Law or Laws
81.	LLD	Doctor of Laws
82.	LLM	Master of Law or Laws
83.	M.Arch.	Master of Architecture
84.	M.Ch.	Master of Chirurgiae
85.	M.Ch.E.	Master of Chemical Engg.
86.	M.Com	Master of Commerce
87.	M.Dance	Master of Dance
88.	M.Ed.	Master of Education
89.	M.Ind.	Master of Indology
90.	M.Lib.Sc.	Master of Library Science
91.	M.Litt	Master of Literature or Master of Letters

92.	M.Mus	Master of Music
93.	M.Pharm.	Master of Pharmacy
94.	M.Phil	Master of Philosophy
95.	M.Plan	Master of Planning
96.	MPE	Master of Physical Education
97.	M.Sc.	Master of Science
98.	M.Stat.	Master of Statistics
99.	M.Tech.	Master of Technology
100.	M.Text	Master of Textiles
101.	M.V.Sc.	Master of Veterinary Sciences
102.	MA	Master of Arts
103.	MBA	Master of Business Administration
104.	MBBS	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
105.	MCA	Master of Computer Applications
106.	M.D.	Doctor of Medicine
107.	MDS	Master of Dental Surgery
108.	ME	Master of Engineering
109.	MEE	Master of Electrical Engineering
110.	MF.Sc.	Master of Fishery Science
111.	MFA	Master of Fine Arts
112.	MJ	Master of Journalism
113.	ML	Master of Laws
114.	MLISc.	Master of Library and Information Science
115.	MME	Master of Mechanical Engineering
116.	MO	Master of Obstetrics or Master of Obstetrics and Gynecology
117.	MOL	Master of Oriental Learning
118.	MPed.	Master of Physical Education
119.	MPA	Master of Performing Arts
120.	MPS	Master of Population Studies
121.	MPT	Master of Physiotherapy
122.	MS	Master of Surgery

123.	MAMS	Master of Ayurved in Medicine and Surgery
124.	MSW	Master of Social Work
125.	MUMS	Master of Unani Medicine & Surgery
126.	Parangat	Parangat
127.	D. Phil.	Doctor of Philosophy
128.	Samaj Karya Parangat	Samaj Karya Parangat
129.	Samaj Vidya Parangat	Samaj Vidya Parangat
130.	Samaj Vidya Visharad	Samaj Vidya Visharad
131.	Shastri	Shastri
132.	Shiksha Acharya	Shiksha Acharya
133.	Shikshan Parangat	Shikshan Parangat
134.	Shiksha Shastri	Shiksha shastri
135.	Shiksha Visharad	Shiksha Visharad
136.	Vachaspati	Vachaspati
137.	Vidya Nishnanat	Vidya Nishnanat
138.	Vidya Praveena	Vidya Praveena
139.	Vidya Vachaspati	Vidya Vachaspati
140.	Vidya Varidhi	Vidya Varidhi
141.	Vidyalankar	Vidyalankar
142.	Visharad	Visharad


(Prof. Ved Prakash)
Secretary